

Date: 12/11/2025

To, The General Manager, Department of Corporate Services, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001	To, Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, Exchange plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051
Scrip Code: 500284	Scrip Code: LORDSCHLO

Sub: Newspaper advertisement as per Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of published newspapers in the English and Hindi for un-audited Financial Results of the Company for the second quarter and half year ended on 30th September, 2025.

Kindly take the above into your records.

Thanking You.

Yours faithfully,

For Lords Chloro Alkali Limited

Pankaj Mishra
Company Secretary and Compliance Officer


BENGAL & ASSAM COMPANY LIMITED				
Consolidated Financial Results (Unaudited) for the Quarter and Half Year ended 30 th September, 2025				
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended
		30.09.2025	30.09.2024 (Revised - Refer Note No. 1)	30.09.2025
1	Total Income from operations	64,238.10	58,987.88	1,21,551.02
2	Profit before Interest, Depreciation & Taxes (PBITD)	22,981.34	18,138.55	35,786.82
3	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	20,074.76	15,429.43	29,997.38
4	Net Profit for the period (before Tax but after Exceptional Items)	20,074.76	15,429.43	29,997.38
5	Net Profit for the period (after Tax and Exceptional Items)	22,562.68	12,774.71	48,405.13
6	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	23,853.85	11,267.12	52,030.89
7	Equity Share Capital	1,140.39	1,140.39	1,140.39
8	Other Equity excluding Revaluation Reserve as shown in Audited Balance Sheet as of 31 st March, 2025	-	-	9,75,022.75
9	Earnings per share of ₹ 10/- each - Basic and Diluted (₹)	191.94	111.79	408.93

Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended
		30.09.2025	30.09.2024 (Revised - Refer Note No. 1)	30.09.2025
1	Revenue	15,229.99	12,325.04	18,073.17
2	Profit before Interest, Depreciation & Taxes (PBITD)	12,431.97	11,960.53	12,937.09
3	Profit before Tax	12,289.43	11,767.32	12,652.72
4	Profit After Tax	10,612.00	9,915.42	10,888.05

Notes :

- The Scheme of Arrangement, amongst Umang Dairies Limited (UDL), Bengal & Assam Company Limited (BACL), and Panchmahal Properties Limited (PPL), a Wholly-owned Subsidiary of BACL, and their respective Shareholders and Creditors, pursuant to the provisions of Sections 230 and 232 of the Companies Act, 2013 for demerger of Dairy Business Undertaking of UDL with into PPL and amalgamation of residual business of UDL into and with BACL, w.e.f. 1st April, 2023 (Appointed Date), sanctioned by the Hon'ble Bench of the National Company Law Tribunal at Kolkata & Allahabad, has become effective on 17th June, 2025. Accordingly, the financial results of the Company for the corresponding periods have been revised. Further, in terms of the Scheme, 1,07,571 equity shares of the Company were allotted to the shareholders of UDL, which has been listed and traded w.e.f. 24th September, 2025.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly / half yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Financial Results are available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and also on Company's website at www.bengalassam.com. The same can be accessed by scanning the QR Code provided below:



For Bengal & Assam Company Limited

Sd/-
(Bharat Hari Singhania)
Chairman

Shareholders holding Shares in Physical Mode are requested to dematerialise their Shares and complete their KYC.

Admin. Office: Patriot House, 4th Floor, 3, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002. **Phone:** 91-11-66001112
Regd. Office : 7, Council House Street, Kolkata-700 001
Telephone No. : 033-22486181 **Fax No.** 033-22481641
CIN : L67120WB1947PLC221402
Website: www.bengalassam.com, **E mail ID:** dsaini@jkmil.com



Richfield Financial Services Ltd
CIN: L65999WB1992PLC055224
Regd. Address: 2B, GRANT LANE, 2ND FLOOR, KOLKATA, WB-700012
EMAIL: secretarial@rfsi.co.in | Website: www.rfsi.co.in

PUBLIC NOTICE OF THE EGM – E-VOTING AT THE EGM & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of 'Richfield Financial Services Limited' ('the Company') will be held on **Wednesday, 03rd December, 2025 at 03:00 P.M (IST)**, through video conference/other audio visual means in compliance with all applicable laws and General circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the Special Business as set out in the Notice of the Meeting.

Electronic copies of the Notice of EGM have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository participant(s). The same is also available on website of the Company. Members are requested to note that the physical copies of the aforesaid documents will not be made available to them by the Company. The dispatch of Notice has been completed on 11th November, 2025.

In compliance with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing its members, facilities for remote e-voting to cast votes on all resolutions set out in the Notice of the EGM. Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on the **cut-off date of Wednesday, 26th November, 2025**, may cast their vote electronically on the businesses set forth in the Notice of the EGM through the electronic voting system, from a place other than the place of venue of the EGM (remote e-voting) and Detailed procedure is provided in the Notice of EGM.

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Members holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s. Niche Technologies Private Limited (herein referred as 'RTA').

Notice is further given that, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the **Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 27th November 2025 to Wednesday, 03rd December 2025 (both days inclusive)** for the purpose of the EGM.

All the members are informed that:

- The businesses as set forth in the Notice of EGM may be transacted through e-voting
- The remote e-voting shall commence on Sunday, 30th November, 2025 (9.00 a.m.)
- The remote e-voting shall end on Tuesday, 2nd December, 2025 (5.00 p.m.)
- The cut-off date for determining the eligibility for e-voting is **Wednesday, 26th November, 2025**. Any person, who acquires shares of the company and becomes member of the company after the dispatch of Notice and holding shares as of the cut-off date may obtain login ID and password by sending an email to nichetech@nichetechpl.com. However, if a person is already registered with remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.
- Members holding shares in physical form who have not registered their mail addresses with the Company/Depositories may obtain the log in and password for E-voting providing the below necessary details:

- For Physical Shareholders-Please provide necessary details like Folio No., Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR card) by email to Company at rfsi.nbf@icml.com or to Registrar & Share Transfer Agent at nichetechpl.com.
- For Demat Shareholders-Please provide Demat account details (CDSL-16-digit beneficiary ID or NSDL-16-digit DPID +CLID), Name, Client master or copy of consolidated Account statement, PAN (Self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR card) by email to Company at rfsi.nbf@icml.com or with your respective Depository Participant (DP) If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the NSDL e-Voting System, you can write an email to evoting@nsdl.com.

VI. Members eligible to vote may note that:

- The remote e-voting module shall be disabled after 5.00 p.m. Tuesday, 2nd December, 2025 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
 - The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their voted again; and
 - A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
 - If a member cast votes by both modes, then voting done through e-voting shall prevail and e-voting during the EGM shall be treated as invalid.
- VII. The Company has appointed M/s Lakshmi Subramanian & Associates, Practising Company Secretaries, having office at 'Murugesan Naicker Complex, No.81, Gretna Road, Chennai-600006 as the scrutinizer to scrutinise the e-voting process and poll at EGM in a fair and transparent manner.
- VIII. The results of e-voting will be announced by the Company on its website www.rfsi.co.in and also to stock exchanges at www.bseindia.in.

By Order of the Board
For Richfield Financial Services Limited
Sd/-
Mr. Vadaseril Chacko Georgekutty
Managing Director

Place: Kochi
Date: 11-11-2025

PREMIER POLYFILM LIMITED						
Regd. Office: 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extn., Zamroodpur, New Delhi-110048. CIN NO. L25209DL1992PLC049580 Phone : 011-45537559 Email : compliance.officer@premierpoly.com						
EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30 th SEPTEMBER, 2025						
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30/09/2025	Quarter ended 30/09/2024	Half Year ended 30/09/2025	Half Year ended 30/09/2024	Year ended 31/03/2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	8,413	8,007	15,910	15,137	30,464
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,100	1,053	1,924	1,836	3,463
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,100	1,053	1,924	1,836	3,463
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	801	786	1,401	1,374	2,600
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	656	742	1,413	1,370	2,501
6	Equity Shares Capital (face value Rs. 1/- Per equity share)	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059
7	Reserve (including Revaluation Reserve) as shown in the Audited balance sheet of previous accounting year	10,728	8,384	10,728	8,384	10,728
8	Earnings Per Share of Rs. 1/- each (for continuing and discontinued Operations) Basic and diluted*	0.76 (₹ Rs. 1/-)	3.75* (₹ Rs. 5/-)	1.34 (₹ Rs. 1/-)	6.56* (₹ Rs. 5/-)	2.48 (₹ Rs. 1/-)

Notes:

- The above extract is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under the Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the stock exchanges website: www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the company's Website: www.premierpoly.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their Meeting held on 10th November, 2025.
- *The Company has Subdivision of existing Equity Shares from One Equity Share of Rs. 5/- each into Five Equity Shares of Rs. 1/- each w.e.f. 05th November, 2024 so Earning per share has been calculated by taking into consideration of face value of share @ Rs. 1/- each.
- Other Figures, except Earnings per share, for the previous period have been regrouped/rearranged wherever necessary to correspond with the Current period's figures.
- The Company has no subsidiary/associate/Joint Venture Company(ies).
- The Company is mainly engaged in manufacturing and sale of Flexible PVC Flooring, Film and Sheets. Hence the Operations of the company are considered as a single business product. Segment reporting is not applicable.



For PREMIER POLYFILM LIMITED Sd/-

AMITAABH GOENKA
MANAGING DIRECTOR & CEO
DIN : 00061027

LORDS CHLORO ALKALI LIMITED
CIN : L24117RJ1979PLC002099
REGD. OFFICE : SP-460, MATSYA INDUSTRIAL AREA, ALWAR (RAJASTHAN) - 301030
CORPORATE OFFICE : A - 281, FIRST FLOOR, DEFENCE COLONY, NEW DELHI - 110024
Tel. : 011-40239034, Email : secretarial@lordschloro.com Web: www.lordschloro.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON SEPTEMBER 30, 2025						
(Rs in Lakhs Except EPS)						
PARTICULARS	Quarter ended		Half Year Ended		Year ended	
	September 30, 2025 (Unaudited)	June 30, 2025 (Unaudited)	September 30, 2024 (Unaudited)	September 30, 2024 (Unaudited)	September 31, 2025 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)
Total income	10,077.37	10,046.61	6,085.85	20,123.98	12,639.07	27,181.47
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,412.96	1,402.55	54.12	2,815.51	258.36	815.29
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,412.96	1,402.55	54.12	2,815.51	258.36	815.29
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	903.79	1,045.01	35.86	1,948.80	231.14	618.06
Total comprehensive income for the period [(comprising profit/ (Loss) for the period and other comprehensive income (after tax)]	912.10	1,053.33	35.59	1,965.43	230.61	651.33
Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- each)	2,515.39	2,515.39	2,515.39	2,515.39	2,515.39	2,515.39
Other equity excluding revaluation reserve	-	-	-	-	-	-
Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing operations) :						
a) Basic	3.59	4.15	0.22	7.75	0.92	2.46
b) Diluted	3.37	3.93	0.21	7.27	0.89	2.37

Notes:

- The above un-audited financial results have been reviewed and recommended by the audit committee and further considered & approved by the Board of Directors at their meeting held on 10-11-2025. These results are as per regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, as amended. The Statutory Auditors have carried out limited review of these results for the quarter & half year ended on September 30, 2025.
- The above financial results have been prepared in accordance with the principles and procedures of Indian Accounting Standards ("Ind AS") as notified under the Companies (India Accounting Standards) Rules, 2015 as specified in section 133 of Companies Act, 2013.
- As per Indian Accounting Standards (Ind AS) 108 "Operating Segment", the Company's business falls within a single business segment viz. Chloro alkali sector/production of Caustic Soda.
- Provision for taxation is made at the effective income tax rates.
- Figures of the previous period have been re-grouped/ re-arranged and/or recasted wherever required.



For Lords Chloro Alkali Limited Sd/-

Ajay Virmani
(Managing Director)
DIN: 00758726

Schneider Electric Infrastructure Limited
CIN: L31900GJ2011PLC064420
Regd. Office: Milestone 87, Vadodara-Halol Highway, Village Kotambi, Post Office Jarod, Vadodara 391 510, Gujarat
Phone: 02668 664466 /664300, Fax: 02668 664621
Website: <https://infra-in.se.com/>, Email: company.secretary@schneider-electric.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 read together with other relevant circulars issued in this regard by Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("the MCA Circular(s)"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and such other applicable laws and regulations, for seeking approval of the Members of Schneider Electric Infrastructure Limited ("the Company") on the resolutions as mentioned in the Postal Ballot Notice dated November 7, 2025 ("Postal Ballot Notice"), by voting through electronic means ("e-voting") only.

All Members are therefore, informed that:

- The Company has completed the online dispatch (only through emails) of Postal Ballot Notice on **Tuesday, November 11, 2025** to all the Members whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners, and who have registered their email address, maintained by Depositories/ Company/Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company as on **Friday, November 7, 2025 ("Cut-off Date")** in accordance with the provisions of the Act read with Rules made thereunder and applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars");
- In accordance with MCA Circulars, physical copies of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business reply envelopes have not been sent to the Members for this Postal Ballot and the Company is providing to its Members the facility to exercise their right to vote only by electronic means through e-voting process provided by National Securities Depository Limited ("NSDL") and the businesses shall be transacted through such e-voting system only;
- The e-voting for Postal Ballot shall commence on **Wednesday, November 12, 2025 (9.00 a.m. IST)** and ends on **Thursday, December 11, 2025 (5.00 p.m. IST)** and the e-voting module will not be allowed beyond the said time and date. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date. A person, who is not a member as on the Cut-off Date, should treat this Postal Ballot Notice for information purpose only;
- To enable maximum participation in the e-voting process, the Company has made appropriate arrangements with Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. CB Management Services (P) Limited, (RTA) for registration of email addresses. The Members may send their e-mail registration request to the Company at company.secretary@schneider-electric.com or to their respective Depository Participants (DPs)/ or to the RTA at ranu.devtalukdar@in.mpsm.mufg.com;
- The Board of Directors have appointed Mr. Kapil Dev Taneja, Partner, failing him Mr. Sujeeet Kumar, Partner, M/s. Sanjay Grover & Associates, Company Secretaries, as Scrutinizers to scrutinize the postal ballot e-voting;
- The Postal Ballot Notice is available on the website of the Company at <https://infra-in.se.com/>, website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and the website of Stock Exchanges i.e. The BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com;
- The result of the e-voting shall be declared within two working days from the date of end of remote e voting period and will be hosted on the website of the Company at <https://infra-in.se.com/> besides being communicated to the NSDL, Stock Exchanges and RTA;
- To understand the process of e-voting, Members are requested to go through the notes to the Postal Ballot Notice or they may refer to the FAQs at www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre (Senior Manager), NSDL on toll-free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send request at evoting@nsdl.com;
- For any grievance or query, Members may write to Mr. Sumit Goel, Company Secretary and Compliance Officer at company.secretary@schneider-electric.com or to the RTA, at ranu.devtalukdar@in.mpsm.mufg.com.

By Order of the Board
For Schneider Electric Infrastructure Limited
Sd/-
Sumit Goel
Company Secretary & Compliance Officer

Date : November 11, 2025
Place: Gurugram

ELLENBARRIE INDUSTRIAL GASES LTD.						
CIN: L24112WB1979PLC029102 Registered Office : 3A Ripon Street, Kolkata, West Bengal-700016, India. Email : compliance.officer@ellenbarrie.com , info@ellenbarrie.com Website : www.ellenbarrie.com Phone: 033-4822 6521; 033-2229 1923						
Extracts of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025						
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30 September 2025 Unaudited	30 June 2025 Unaudited	30 September 2024 Unaudited	30 September 2025 Unaudited	31 March 2025 Audited
1	Total Income	1,017.84	904.59	1,019.42	1,922.43	3,484.32
2	Profit/ (Loss) for the period before tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	399.61	278.29	344.98	677.90	1,078.25
2	Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	399.61	278.29	344.98	677.90	1,078.25
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	367.17	187.12	296.52	554.29	832.89
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) & Other Comprehensive Income (after tax))	360.80	186.50	320.21	547.30	834.66
5	Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 2/- per share)	281.87	281.87	281.87	281.87	281.87
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	4,439.76
7	Earning per share (Face value of ₹ 2/- per share) (not annualised) Basic & Diluted	2.61	1.42	2.26	4.07	6.36

Notes:

- The unaudited financial results of Ellenbarrie Industrial Gases Limited ('the Company') has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act 2013, as amended, read with relevant rules there under ('Ind AS') and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, as amended ('the Regulations').
- The standalone financial results for the quarter ended 30 September, 2025 were reviewed by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 10 November, 2025. The statutory auditors have issued unmodified report on these results.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the websites of the stock exchange website of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the company's official website www.ellenbarrie.com. The same can be accessed by scanning the QR code provided below.



By the order of the Board
For Ellenbarrie Industrial Gases Limited Sd/-

Padam Kumar Agarwal
Chairman & Managing Director
DIN: 00187727

ODIGMA CONSULTANCY SOLUTIONS LIMITED
[CIN: L72900GJ2011PLC131548]
Registered Office: 27th Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road -5C, Zone-

समसामयिक अध्ययन केंद्र

प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय

द्वारा आयोजित

प्रधानमंत्री व्याख्यान शृंखला के भाषण

डॉ. मनमोहन सिंह का जीवन एवं उत्तरदाय

में

आप सादर आमंत्रित हैं।

वक्ता : श्री मोटेंक सिंह अहलूवालिया

अर्थशास्त्री एवं पूर्व उपाध्यक्ष, योजना आयोग

दिनांक: 13 नवम्बर 2025, गुरुवार

समय: अपराह्न 4:30 बजे

स्थान:

सभागार, पुस्तकालय भवन

प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय

तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली-110011

सभी का स्वागत है।

अपना नाम जोड़ने के लिए कृपया हमें ईमेल करें: ccs2nmml@gmail.com

cbc09142/12/0031/2526

केन फिन होम्स लिमिटेड

डीडीए बिल्डिंग, प्रथम तल, मास सिरोमा के पास, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

फ़ोन : 011-26435815, 2643023, 011-26487529, 7625079108, ईमेल : delhi@canfinhomes.com CIN : L85110KA1987PLC008699

कब्जा सूचना [नियम 8(1)] [अचल सम्पत्ति के लिए]

जबकि, अघोस्तासहरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना (नियमकित 06.08.2002 को जारी की थी जिसमें कर्जदार श्री कासिम पुत्र रहीसुदीन (अध्याकर्ता) और श्रीमती हसीना पत्नी कासिम (सह-अध्याकर्ता) तथा श्री समसुद्दीन पुत्र साबिर खान (गारंटर), से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि रु. 12,66,243 /- (रुपए बारह लाख छियासह हजार दो सौ तिरासह मात्र) उक्त नॉटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर वसूली की तारीख तक सविदालक दरों पर अतिरिक्त ब्याज सहित चुकाने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अघोस्तासहरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 7 नवम्बर 2025 को प्राप्त कर लिया है। सूचितित परिसंपत्तियों को मुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार /यों, गारंटर/यों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को सह संपत्ति के संबंध में संयवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संयवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, की बकाया राशि रु. 12,66,243/- (रुपए बारह लाख छियासह हजार दो सौ तिरासह मात्र) और उस पर आगे ब्याज व अन्य शुल्क प्रमाराधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

पट्टे संख्या 383-बी, द्वितीय तल, न्याय खंड-1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201010

संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं:-

उत्तर: पट्टे संख्या 378-बी, दक्षिण: पट्टे संख्या 384-बी, पूर्व: खुला स्थान, पश्चिम: मार्ग / पट्टे संख्या 382-बी

स्थिति: 11.11.2025

हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

लॉर्ड्स क्लोर्स अल्कली लिमिटेड

सीआईएफ नंबर- L24117RJ19799PLC020099

पंजी. कार्यालय- एच/ए-460, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर (राजस्थान) – 301 030

कॉर्पोरेट एकाईस: ए-281, पवती मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024

फोन: 91-11-40239034 ई-मेल: secretarial@lordschloors.com वेबसाइट: www.lordschloors.com

30 सितम्बर 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण

(इंटीग्रेट प्रोड्यूसर सॉफ्ट लाइक कर्जों में)

विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
	सितम्बर 30, 2025 (अलेखापरीक्षित)	जून 30, 2025 (अलेखापरीक्षित)	सितम्बर 30, 2024 (अलेखापरीक्षित)	सितम्बर 30, 2025 (अलेखापरीक्षित)	सितम्बर 30, 2024 (अलेखापरीक्षित)
कुल आय	10,077.37	10,046.61	6,085.85	20,123.98	12,639.07
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अस्थापना और / या अस्थापन मद्यों के पूर्व)	1,412.96	1,402.55	54.12	2,815.51	258.36
अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि) (असामान्य और / या अस्थापन मद्यों के बाद)	1,412.96	1,402.55	54.12	2,815.51	258.36
अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) (असामान्य और / या अस्थापन मद्यों के बाद)	903.79	1,045.01	35.86	1,948.80	231.14
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [जिसमें अवधि के लिए लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं]	912.10	1,053.33	35.59	1,965.43	230.61
प्रदत्त इन्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- रुपये)	2,515.39	2,515.39	2,515.39	2,515.39	2,515.39
अन्य इन्विटी (एग्नोमिन्यांकन रिसर्च को छोड़कर)	-	-	-	-	-
प्रति शेयर आय (प्रति 10/- रुपये)	-	-	-	-	-
(जारी परिचालनों के लिए):	3.59	4.15	0.22	7.75	0.92
अ) मूल	3.37	3.93	0.21	7.27	0.89
ब) परिसमाप्त	3.37	3.93	0.21	7.27	0.89

नोट्स:

- उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और अनुसंधान की गई है और 10.11.2025 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा आगे विचार और अनुमोदन किया गया है। ये परिणाम सेबी (सूचीबद्धता, दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम 2015 के नियम 33, व्यापारसंश्लेष, अनुसूचक हैं। सांख्यिक लेखा परीक्षा में 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही की अवधि के लिए इन परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
- उपरोक्त वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट कंपनी (सारल लेखा परीक्षा) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित और भारतीय लेखा मानकों ('इंड एसएस') के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किया गया है।
- मास्रीय लेखा मकान (इंड एसएस) 108 'ओपरेटिंग सेगमेंट' के अनुसार, कंपनी का व्यवसाय एकल व्यवसाय खंड अर्थात वल्लोरे अल्कली होस्ट / कॉर्पोरेट सोझा विभिन्निक के अंतर्गत आता है।
- कारधान का प्राधान्य प्रभावी आयकर दरों पर किया गया है।
- पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुन: समूहीकृत / पुन: व्यपरीक्षित और / या पुनर्गठित किया गया है।

क्ते लॉर्ड्स क्लोरे अल्कली लिमिटेड

हस्ता /- अजय बिरमानी (नियेदेशक)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 10-11-2025

ई-नीलामी बिक्री सूचना

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएफ: U67100MH2007PLC174759

रिटेल सेंट्रल एवं रजि. कार्यालय: एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसडी रोड, कलिंगा, मुंबई 400098

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं निर्माण निगम और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, जिसमें प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6), (8) और नियम 9(1) के साथ पठित।

पूर्वावधान किनकोर्प लिमिटेड (जिसे पहले नेमा किनकोर्प लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (जिसे आगे मूल ऋणदाता कहा जाएगा) की वित्तीय सुविधाएं एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे "ईएसआरसी"/असादी/कहा जाएगा) को सौंप दी गई हैं, जो दिए गए कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित ईएसआरसी-ट्रस्ट-पैरामी-423 के दृष्टी से रूप में कार्य कर रही हैं। उक्त असाइनमेंट के अनुसार, ईएसआरसी ने समुद्रदेशक की सुनिश्चिता निमाई है और सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। उस ईएसआरसी ने, सुरक्षित ऋणदाता के रूप में, सार्वजनिक अधिनियम की धारा 13(4) और उसके अंतर्गत नियमों के अंतर्गत नीचे उल्लिखित अचल सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, कानूनी उत्तराधिकारियों और गारंटर (यों) को 15 दिनों का नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सुरक्षित संपत्तियां जो सुरक्षित लेनदार के पक्ष में गिरी रही हैं, जिन्का मौलिक कब्जा सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी (एडी) द्वारा ले लिया गया है, उन्हें "जहां है उसी है", "जो है उसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर सेवा जाएगा, ताकि ईएसआरसी को देय नीचे उल्लिखित संपत्तियों की वसूली की जा सके, साथ ही उधारकर्ता और गारंटर से ईएसआरसी द्वारा प्राप्त किसी भी धन के लिए कानूत गैर ब्याज और अन्य खर्चों/लागतों की भी वसूली की जा सके। संपत्ति के लिए अराहित मूल्य और बचाना राशि नीचे उल्लिखित है। 25 जुलाई और 25 जून को हुई पिछली नीलामी बोलीदाताओं की कमी के कारण पिछले हो गई थी।

नीलामी के लिए रुई नई सुरक्षित संपत्ति का विवरण:

क्र. सं.	क्र. सं. खाता संख्या सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम	दृष्ट का	11.11.2025 तक कुल बकाया राशि	आवृत्ति मूल्य (रुपये में)	बचाना राशि धारा (ईएससी)रुपये में	नीलामी की तिथि और समय	कम्मे का प्रकार
1	11/00431/H/1/3/000047	मयंक श्रीवास्तव (उधारकर्ता) पद्मा श्रीवास्तव और मेहसाई आई.बी. फार्मा (सह-उधारकर्ता) के साथ	ईश्वर सी-423	रु. 91,83,945.39 /-	रु. 50,00,000 /-	रु. 5,00,000 /-	28.11.2025 सुबह 11:00 बजे	मौलिक

संपत्ति विवरण: खसरा संख्या 257 निमन पर लॉक संख्या 1 का स्थान, 1500 वर्ग फुट क्षेत्रफल, ग्राम-अहिलेशपुर, वार्ड-त्रिवेणी नगर-1, महारवल व जिला लखनऊ। स्थिति: उत्तर में चप्पा देवी का मकान, दक्षिण में श्रीमती मिथिलेश कुमार का प्लांट, पूर्व में राम नारायण की जमीन, पश्चिम में 25 फुट चौड़ी सड़क से घिरा। जो रजिस्ट्रार नंदर कुमार श्रीवास्तव के कानूनी उत्तराधिकारियों के स्वामित्व में, पुरस्क संख्या 3691, एप्ट 233/224 पर क्रमिक 1214 पंजीकृत, दिनांक 28.01.1991 को उत्तर-पश्चिमय लखनऊ।

नीलामी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी:

- सभी बिनाड ड्राफ्ट (बीडी) "एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड-ईएससी अकाउंट" के पक्ष में तैयार किए जाएंगे और मुद्राई में देय होंगे।
- आरोजीकरण के नियमों से किए गए ईएससी भुगतान निम्नलिखित को किए जाएंगे: खाता संख्या का नाम: एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड - ईएससी खाता संख्या: 000405158602 बैंक का नाम: आईसीआईआईआई बैंक आईएसएससी कोड: आईएसएससी आईसीआईआई0000004
- ईएससी खाता करने की अंतिम तिथि: नीलामी की तिथि से 1 दिन पहले प्राप्त की गई
- बोलियों प्रस्तुत करने का स्थान: प्रथम तल, एडलवाइस हाउस, सीएसडी रोड के पास, कलिंगा, मुंबई-400098
- नीलामी का समय (नीलामी के लिए वेब साइट): E-Auction (https://auction.edelweissarc.in)
- सामान्य नकार: टेंडर की प्रत 18002665540 Website - https://auction.edelweissarc.in/
- संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय: पूर्व निष्पत्ति के अनुसार

बिक्री के विस्तृत नियमों और सारों के लिए कृपया EARC की वेबसाइट पर दिए गए लिंक <https://auction.edelweissarc.in> देखें।

हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 12.11.2025

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के लिए (ईएससी-ट्रस्ट-पैरामी-423 के लिए दृष्टी)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

मुजफ्फर नगर हाउस 246, आर्यपुरी, टाउन हिल्स रोड मुजफ्फरनगर 251001

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पठने हुए अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्पत्तिकरण/क्रय/क्रयियों/क्रेयकर्ताओं को प्रत्येक के नाम के सामने दायर्य नहीं लाते ने उनके नामों के सामने ही गई तारीखों पर नोटिस की तारीख उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि वास्तविक दलों पर सुविधा दए और ब्याज, वसूली आदि पर ब्याज सहित अंतिम आकर करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। क्रयों/क्रयियों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहे पर क्रयों/क्रयियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पठते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा 10.11.2025 ले लिया है। क्रयों/ क्रयियों को विशेष रूप से यह जानकारी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, को देय राशि वास्तविक दलों पर सुविधा दए एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में अलेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दलों पर और ब्याज, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि तक देय राशि को साथ देय है।

ऋणकर्ताओं और बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सुरक्षित संपत्ति को भुनाने हैं।

क्र. सं.	क्र. सं. / बंधककर्ता व गारंटर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	मोहम्मद नासिर पुत्र सदीक (मृतक) अपने कानूनी वारिसों, श्री समीर पुत्र रवर्गीय मोहम्मद नासिर और श्री कौशर पत्नी रवर्गीय मोहम्मद नासिर निवासी मकान नंबर 782, दक्षिणी खलापर, मुजफ्फरनगर-251001 और ऋणकर्ता के अन्य सभी ऋणों उत्तराधिकारी के माध्यम से। (ऋणकर्ता)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल जिसमें एक रिहायशी मकान शामिल है, स्थित खसरा नंबर 2814, मौहल्ला दक्षिणी कृष्णपुरी (हर्षावर्धन नगरपाली) मुजफ्फरनगर (बाहर हट्ट) तहसील परगना जिला मुजफ्फरनगर, सीमाएं:-उत्तर:- श्री सुरेश की संपत्ति, दक्षिण:- श्री हरि दास का प्लॉट, पूर्व:- श्री ऋषि पाल की संपत्ति, पश्चिम:- 18.00 फीट चौड़ी सड़क।	27.05.2025	10.11.2025	रु. 21,72,655.18 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क

दिनांक- 11.11.2025 प्राधिकृत अधिकारी

Criminal Courts, Amritsar

In The Court Of Amanpreet Singh Ghuman JMFC, Amritsar Next Date: 10-12-2025 next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on <http://ecourts.gov.in>

Proclamation requiring the appearance of a person accused (Detail of offence- Police Station/Fir No. vcrka/010 NACT/4698/2022 CNR NO.PBAS03-032058-2022 m/s NRC Industries Limited Vs. M/s Pratiba Contractor Publication Issued To: 1) m/s pratiba electrical contractor LLP having its office at 23, shikhar sukrawar path pune maharashtra 2) hrisheksh lakshmi joshi partner/m/s pratiba electrical contractor LLP having its office at 23 shikhar sukrawar path, pune maharashtra Whereas complaint/case has been made before me that R/o has committed (or is suspected to have committed) the offence punishable under section of and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said has absconded (or is concealing himself/herself to avoid the service of the said warrant); Proclamation is hereby made that the said is required to appear before this Court (or before me) on 10-12-2025 to answer the said complaint/case.

dated, this day 04/11/2025 JMFC, Amritsar

एसपीए कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस: 26, सी- ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110 058

वेबसाइट: <http://www.spacapital.com/Capital/Services/>

सीआईएफ : L65910DL1984PLC818749

टेलीफोन नं- 011-46876500, ई-मेल आईडी: listing@spacapital.com

असाधारण आम बैठक(ईजीएम) और रिमोट ई-वोटिंग का नोटिस

1.एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एसपीए कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यों की एक असाधारण आम बैठक(ईजीएम) शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025 को सुबह 11:00 बजे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस 26 सी- ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058 में होगी, जिसमें ईजीएम के नोटिस में ब्याज पर कामकाज पर चर्चा की जाएगी।

2.अन्य अधिनियम, 2013 की धारा 101 के साथ कंपनी (प्रवर्तन और प्रावधान) नियम, 2014 (अधिनियम और नियम) (जिसमें सामान्य-सामय पर लागू कोई भी वैधानिक प्रावधान या पुनर्निर्माण शामिल है) के नियम 18 के अनुसार, ईजीएम में किए जाने वाले कामकाज को बताने हुए नोटिस और सूचीकृत विवरण उक्त सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया है जिसके ई-मेल आईडी कंपनी या डिजिटलरी वॉलेटिस्ट (ओ) के साथ रजिस्टर्ड है और अन्य सभी सदस्यों को उनके रजिस्टर्ड पते पर अनुमत तरीके से भेजा गया है।

ईजीएम के नोटिस का विवरण मंगलवार,11 नवंबर, 2025 को पूरा हो गया है। नोटिस कंपनी की वेबसाइट <http://www.spacapital.com/Capital/Services/> पर उपलब्ध है।

3. जो सदस्य सूचीकृत, 28 नवंबर, 2025 की कट-ऑफ तारीख तक मौलिक या वैमेरियर/टाइड्स रूप में भेज रखते हैं, वे नेमबल सिक्वोरिटीर डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएन) के इलेक्ट्रॉनिक नोटिस सिस्टम के माध्यम से ईजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से ईजीएम/रिमोट ई-वोटिंग) के नोटिस में बताए गए कामकाज पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- ईजीएम के नोटिस में बताए गए कामकाज को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करके पूरा किया जा सकता है।
- रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 2 दिसंबर, 2025 (सुबह 9.00 बजे आईएससी) से शुरू होगी,
- रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025 (साम 5.00 बजे आईएससी) को समाप्त होगी, इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ईजीएम में वोट देने की पात्रता तय करने की कट-ऑफ तारीख शुक्रवार, 28 नवंबर, 2025 है।
- कोई भी व्यक्ति, जो ईजीएम के नोटिस में भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनने को कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 28 नवंबर, 2025 तक शेरर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in ऑफ लाइन/ एलेक्साप्वर आउटरी, एमएसएस सर्विसेस लिमिटेड पर अनुबंध मेमबर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएन का खाता रजिस्टर्ड है तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "यूजर डिटेल्स/पासवर्ड भूल गए" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या निम्नलिखित टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं।
- ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश कंपनी की वेबसाइट <http://www.spacapital.com/Capital/Services/> पर उपलब्ध ईजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।
- सदस्य ध्यान दें कि: क) एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी, क) ब्रेकेट भेजने के माध्यम से वोटिंग की सुविधा ईजीएम में उपलब्ध होगी, क) जिस सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी ईजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन उक्त सभागत अंत डालने का अधिकार नहीं होगा, ड) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तारीख को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ब्रेकेट भेजने के जरिए ईजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठा सकता, ए-ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में, सदस्य <https://www.evoting.nsdl.com/> पर संपर्क करें।
- ई-वोटिंग में उपलब्ध सदस्यों के लिए ईएस और 'अवरर यूज' जाने वाले प्रश्न (फर्कएवर) और 'ई-वोटिंग यूजर नेमबल' रजिस्ट्रेशन से evoting@nsdl.com पर ईमेल भेज सकते हैं या किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिए कंपनी से ईमेल: listing@spacapital.com पर संपर्क कर सकते हैं।
- ई-वोटिंग के नतीजे कंपनी की ईजीएम के दिन या उसके बाद घोषित किए जाएंगे और कंपनी/आउटरी /एसआरसी द्वारा प्रकाशित पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

कृते एसपीए कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड हस्ता/- संदीप शर्मा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 11-11-2025

हिंदुजा हाउसिंग फाईनैस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय:- प्लॉट-169, क्षीरप तल, अन्ना सार्दा, सेक्टर-6, वेनार्ड-600015, ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com

आपका या पता: प्रथम तल, अम पैलेस लिमिया, 547, बंगला नगर, दिल्ली रोड, लखनू - 245101

आरंभालप – हसमहीन राजा, मोबाइल – 8468989820, सीएलएफ – एचि कुमार मोबाइल 9999044581

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सदस्यी एकट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अंतर्गतगत सूचना जारी की जाती है।

हिंदुजा हाउसिंग फाईनैस लिमिटेड से प्राप्त किये गये ऋण को कि एनपीए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि ओय हो, उसको विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्ण एवं प्रतिक्रिाति प्रश्न अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक पानी सहित /सहित/बिना/बिनापर प्राप्त आग मांग की गयी, जिसकी पानी राशि नही हुई।/ओ बिना नाली वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नलिखित दिनांकों में हमने असाध को प्रेष्य कर दिया था, कि असाध द्वारा सूचना में दायी राशि 60 दिनों के अन्दर ब्या मनी कराये गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियों को कि निम्नलिखित ऋणियों/जमानतदारों के नाम है, उनका आश्रित्य ले लिहा जायेगा और कब्जा सूचना/ई-नीलामी सूचना में कर्जदार व गारंटियों की प्रोटे प्रक़ाशित की जायेगी। बक़या राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	खाता सं / कर्जदार /सह-कर्जदार/ गारंटर के नाम और एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तिथि	संस्थान की तिथि	संस्थान की तिथि का विवरण
1	GHBUL/BULA/A000000286, सुनी शशी राघव और श्री संचु कुमार, दोनों 14 नवंबर, 55 सुबू, प्राणग, खुर्वा, उत्तर प्रदेश, भारत – 203132	07-11-2025	र 21638871- दिनांक 07.11.2025	मकान माप 235 वर्ग गज यानी 197 वर्ग मी. खसरा संख्या 347 वर्ग मी, मीर भदोरा परगना बरत हरीसल खुर्वा जिला बुन्देलखर (उत्तर प्रदेश) सीमाएं पूर्व: राजेंद्र का मकान, पश्चिम: राजनदा का मकान, उत्तर: राजनदा का प्लॉट, दक्षिण: 10 फीट चौड़ी सड़क
2	GHBUL/BULA/A000000270 श्री विश्वराम विश्वराम और श्रीमती सुनीता सुनीता, दोनों बुन्देलखर, 1, हनुमतरपुर, धरम कुडुसपुर, खुर्वा बुन्देलखर, मूय, महरी, बुन्देलखर, उत्तर प्रदेश, भारत – 203031	07-11-2025	र 1222038 दिनांक 07.11.2025	मकान जोकि नगरपालिका नमान संख्या 769 माप 93 वर्ग गज अर्थात 77.80 वर्ग मी. नीर मोदपुर, महारल एवं जिला बुन्देलखर (उत्तर प्रदेश) सीमाएं पूर्व: मूनि होमर, पश्चिम सड़क, 8 फीट 6 इंच (अर्थात 2.59 मीटर) चौड़ी, उत्तर- मनु मन्ना सिंह रावत का मकान, दक्षिण: राजन सिंह का मकान
3	GHBUL/GULW/A000000261 श्री विलास विलास और श्रीमती रमा परवीन, दोनों 445 लोहावा पीरगाना, 1, गुलाबगढ़, आर माहीन माही माही, महरी गुलाबगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत – 245408	07-11-2025	र 1022481 दिनांक 07.11.2025	आवासीय मूड्ड खसरा संख्या 1310 का भाग क्षेत्रफल 153 वर्ग मी (अर्थात 127.99 वर्ग मी) मौहल्ला पंच का, गुलाबगढ़, परगना अमोदा, जिला बुन्देलखर (उत्तर प्रदेश), सीमाएं पूर्व: सीतम का मकान, पश्चिम: रहीपूदीन का मकान, उत्तर: दीवार, दक्षिण सड़क 15 वर्ग मी, चौड़ाई 4.57 मीटर
4	GHBUL/KALE/A000000090, श्री हरेंद्र सिंह श्रीमती सीमा सीमा, दोनों 125 बसोली, 1, बहादुरपुर कांठ बुन्देलखर उत्तर प्रदेश, महरी, बुन्देलखर, उत्तर प्रदेश, भारत – 203411	07-11-2025	र 1016845 दिनांक 07.11.2025	प्रीहोसल आवासीय मकान क्षेत्रफल 132.11 मी क्षेत्रफल 136 का भाग मौहल्ला/ गाँव शाहपुर कांठ, परगना एवं तहसील खुर्वा, जिला बुन्देलखर, उत्तर प्रदेश सीमाएं पूर्व: कुमारी का मकान, पश्चिम: राजेंद्र का मकान, उत्तर: 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: दीवार का प्लॉट
5	GHBUL/KALE/A000000132, श्री राकेश कुमार, श्रीमती बबीता कुमारी श्री लोकेश सोलंकी, सीमा 38 कपना, 1, कपना झंझर, महरी, बुन्देलखर, उत्तर प्रदेश, भारत – 203033	07-11-2025	र 1058812 दिनांक 07.11.2025	आवासीय मकान क्षेत्रफल 117.79 वर्ग मी, भाग खसरा संख्या 469, नीर कपना, परगना एवं तहसील खुर्वा, जिला बुन्देलखर (उत्तर प्रदेश) सीमाएं पूर्व: शिखरमूक का मकान, पश्चिम: 8 फीट चौड़ी गली नाला, उत्तर 12 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: दीवार का प्लॉट
6	GHBUL/SIKA/A000000183, श्री प्रमोद कुमार, श्रीमती अनुपमा नाथी, श्री भूषे सिंह, सभी 01 ग्राम-धरगो नाग, 1, शिकंदराबाद, घोला थाना के पास, प्राणग, बुन्देलखर, उत्तर प्रदेश, भारत – 203131	07-11-2025	र 1001236 दिनांक 07.11.2025	आवासीय मकान खसरा संख्या 450 का भाग (क्षेत्रफल 209.03 वर्ग मी) नीर धमरा नाग, परगना एवं तहसील शिकंदराबाद, जिला बुन्देलखर (उत्तर प्रदेश) सीमाएं पूर्व: वियय का मकान, पश्चिम: सड़क 8 फीट, उत्तर: इंदर का मकान, दक्षिण: तमवरण का मकान
7	GHBHPR/HAPUA/A000000467 श्री पंकज बोलोन और श्रीमती लता देवी और श्रीमती उमेश देवी, सभी मी नगला क्षरत, भारत, दक्षि			